

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया एलुमनी कनेक्ट ने किया मीट का आयोजन, जामिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लिया संकल्प

जामिया एलुमनी कनेक्ट (JAC) के दिल्ली चैप्टर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 30 अक्टूबर, 2022 को यूनिवर्सिटी के 102वें स्थापना दिवस के अवसर पर ऑडिटोरियम, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जामिया में एक एलुमनी मीट का आयोजन किया। जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर, ने समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, प्रोफेसर नाजिम हुसैन जाफरी, रजिस्ट्रार, जेएमआई, प्रो इब्राहीम, प्रभारी, जेएसी, जेएमआई, पूर्व जेएमआई कुलपति श्री शाहिद मेहदी, विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा शिक्षक शामिल थे। जेएसी द्वारा मई, 2021 में इसके गठन के बाद विश्वविद्यालय के मौजूदा पूर्व छात्रों के निकाय का इसमें विलय करके आयोजित होना वाला यह पहला कार्यक्रम था।

डॉ. हनीफ कुरैशी, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, पंचकूला और सचिव, अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा, समारोह के मुख्य अतिथि (राष्ट्रीय) थे और श्री उपेंद्र गिरि, सीईओ और संस्थापक, UpLyft ग्लोबल, कैलिफोर्निया, यूएसए मुख्य अतिथि (अंतर्राष्ट्रीय) थे। समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध आरजे नावेद खान और सुश्री निशात अफजा बेग, उद्यमी थीं। मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि दोनों विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं।

जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में जामिया के पूर्व छात्रों के साथ बातचीत करना और इस अवसर का उपयोग महान संस्थान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए करना उनके लिए व्यक्तिगत खुशी की बात है। "यह चर्चा करने का एक शानदार अवसर है कि हम अपने ऐतिहासिक संस्थान के एकत्रीकरण और विस्तार के लिए अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। जामिया के पूर्व छात्रों को एक दूसरे के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। मुझे एक ऐसे दिन की उम्मीद है जब जामिया के पूर्व छात्र विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और ढांचागत विकास के लिए फंड्स का एक पूल बनाने के लिए एक IIT पूर्व छात्र संघ की तरह विकसित होंगे।" कुलपति ने कहा।

डॉ. हनीफ कुरैशी ने अपने संबोधन में कहा कि गुड से ग्रेट की ओर बढ़ने के लिए हमें खुद को नए सिरे से तैयार करना होगा और नए लोगों से जुड़ना होगा और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि जामिया द्वारा दुनिया भर के अपने पूर्व छात्रों से जुड़ने के लिए नई पहल की गई है। "हम सभी अपने संस्थापकों के सपनों को पूरा करने में योगदान देना चाहते हैं। हमें एक तालमेल रखना चाहिए और सभी पूर्व छात्रों के साथ जुड़ना चाहिए, सभी एक साथ आएँ और जामिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाएँ।" डॉ. कुरैशी ने कहा।

श्री उपेंद्र गिरि ने कहा कि उनके परिवार के कई सदस्य जामिया में पढ़े हैं और वे सभी विश्वविद्यालय के विकास में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि संस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए एक मजबूत पूर्व छात्र नेटवर्क आवश्यक है।

आरजे नावेद खान और सुश्री निशात अफजा बेग ने जोर देकर कहा कि जेएमआई ने उनके व्यक्तित्व और उनकी सफलता को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उनके लिए सम्मान की बात होगी यदि वे आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय और उसके छात्रों के लिए कुछ कर सकें। उन्होंने अन्य पूर्व छात्रों से आगे आने और अपने अल्मा मेटर के विकास में योगदान देने की अपील की।

प्रो. इब्राहीम, प्रभारी, जेएसी, जामिया ने अपने संबोधन में सैल के उद्देश्यों और पूर्व छात्रों के नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

प्रो. नाज़िम हुसैन जाफ़री, रजिस्ट्रार, जामिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सभा द्वारा राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का समापन किया गया।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया